

निरसा-कालूबथान में वाहन सहित 224 बोतल नकली अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार

Publish Date: Sun, 23 Dec 2018 10:19 PM (IST)



निरसा/कालूबथान : निरसा थाना प्रभारी सुषमा कुमारी गुप्त सूचना के आधार पर निरसा बेनागोड़िया पंचायत के जोगीतोपा मांझी टोला में शनिवार की देर रात छापेमारी कर 44 बोतल नकली शराब जब्त की। साथ ही दो हजार खाली बोतल, स्टीकर, ढक्कन भी जब्त की। वहीं करीब एक गैलन स्पिरिट को नष्ट कर दिया गया। वहीं जब्त शराब को निरसा थाने ले आई।

वहीं कालूबथान ओपी प्रभारी सच्चिदानंद साहू के नेतृत्व में वाहन चेकअप अभियान के दौरान मारुति वैन संख्या जेएच 22 ए- 0614 में 'कग्स गोल्ड अवैध अंग्रेजी शराब की 15 पेटी जब्त की। इनमें करीब 180 बोतल शराब थी। साथ ही एक मोबाइल, वाहन व एक व्यक्ति शिबू दास उर्फ फुचा को गिरफ्तार कर लिया। निरसा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का काम विकास साहनी एवं पार्थो रक्षित द्वारा किया जा रहा था।

उपरोक्त दोनों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जानकारी हो कि निरसा थाना के जोगीतापा में पहले भी कई बार निरसा थाना की टीम ने नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की थी और नकली शराब का कारोबार करने वाले कई लोगों को पकड़कर जेल भेज चुकी है। इसके बावजूद जोगीतापा गांव में नकली शराब बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। दूसरी ओर कालूबथान ओपी प्रभारी द्वारा निरसा- कालूबथान रोड स्थित पूजा पेट्रोल पंप के समीप रविवार तड़के वाहन चेकअप अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान मारुति वैन संख्या जेएच 22 ए- 0614 को जांच के लिए रोका गया। जांच करने पर उसमें 'कग्स गोल्ड अवैध अंग्रेजी शराब 15 पेटी में 750 एमएल की कुल 180 बोतलें पाई गईं। जब्त शराब की बोतलों में चंडीगढ़ का रेपर सटा हुआ है।

वाहन चालक आसनलिया पंचायत के शिबू दास उर्फ फुचा एवं एक मोबाइल सहित वैन को पुलिस ने जब्त कर ओपी ले आई। चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब कुसुमदहा निवासी तरुण राय उर्फ तपन राय के घर से लाद कर निरसा जा रहे थे। शाम चार बजे एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब व्यापारी एवं कोयला तस्करों को बखशा नहीं जाएगा। कुमार ने कहा कि तरुण राय अवैध शराब कारोबार में कई बार जेल जा चुका है। उसके साथ-साथ वैसे शराब तस्करों पर पुलिस की नजर है। छापेमारी में एसआइ हरिप्रकाश मिश्रा, विजय कुमार सह शामिल थे।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/dhanbad-police-raid-18781886.html>